

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-2007/2024-255614
SG-DL-E-2007/2024-255614असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 18, 2024/आषाढ 27, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 108
No. 187]	DELHI, THURSDAY, JULY 18, 2024/ASHADHA 27, 1946	[N. C. T. D. No. 108

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIव्यापार एवं कर विभाग
(दिल्ली जीएसटी पॉलिसी शाखा)
अधिसूचना

दिल्ली, 18 जुलाई, 2024

सं. 32/2023-राज्य कर

सं. फा. 2(500)/पॉलिसी/जीएसटी/2023/1705.—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 44 के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त परिषद की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका वित्तीय वर्ष 2022-23 में सकल आवर्त दो करोड़ रुपये तक है, को उक्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान करते हैं।

ए. अनबरसु, प्रधान आयुक्त (राज्य कर)

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

(GST-Policy Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 18th July, 2024

No. 32/2023-State Tax

No. F.2 (500)/Policy/GST/2023/1705.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 44 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby exempts the registered person whose aggregate turnover in the financial year 2022-23 is up to two crore rupees, from filing annual return for the said financial year.

A. ANBARASU, Pr. Commissioner (State Tax)